

### CLASS-3

### SUBJECT-2<sup>ND</sup> LANGUAGE HINDI

### CHAPTER- 4

### रँगा सियार

### WORKSHEET

#### सार:-

- बच्चों यदि हम किसी को झूठ बोलकर या धोखा देकर यह सोचते हैं कि हम सुख शांति से रह लेंगे तो हम गलत सोचते हैं क्योंकि हमें हमेशा इस बात का डर रहेगा कि कभी मेरी गलती का किसी को पता चल गया तो उसका अंजाम क्या होगा इसलिए हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए ।
- किसी जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन उसके मन में गाँव देखने की बहुत इच्छा हुई और वह गाँव देखने आगे बढ़ गया।
- जब वह गाँव पहुँचा तो बहुत रात हो गई थी और उस गाँव के कुछ कुत्ते सियार के पीछे पड़ गए और उसे देखकर भौंकने लगे।
- सियार खुद की जान बचाने के लिए एक मकान में घुस गया। वहाँ बहुत अँधेरा था और घबराहट में आकर वह एक टब में गिर गया। वास्तव में वह मकान एक कपड़े रंगने वाले आदमी का घर था। जब कुत्तों की भौंकने की आवाज बंद हो गई तो सियार छुपते- छिपाते जंगल की ओर चला गया और अपने गुफा में जाकर सो गया।
- सुबह होने के बाद सियार भोजन की तलाश में निकल गया उसे देख कर जंगल के सभी जानवर डर गए। सियार को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। उसकी

नजर उसके शरीर पर पड़ी उसका शरीर नीले रंग का हो चुका था। तभी सियार को एक उपाय सूझा।

● रँगा सियार एक ऊँचे टीले पर चढ़ गया और सभी जानवरों को अपने पास बुला कर कहने लगा कि डरो नहीं मेरा नाम शूरवीर है। मैं तुम सब का राजा हूँ। मुझे ईश्वर ने भेजा है। आज से मैं तुम सब की रक्षा करूँगा। सभी जानवरों को सियार की बातों पर विश्वास हो गया और सब ने सियार को अपना राजा मान लिया।

● सियार ने सभी जानवरों को कुछ ना कुछ काम दिया। उसने बाघ को अपना अंगरक्षक बनाया। चीते को उसने शिकार करने का काम दिया। गैंडे को उसने द्वारपाल बनाया। परंतु सियारों को उसने कोई काम नहीं दिया क्योंकि उसे डर था कि उनके साथ रहकर उसका भेद ना खुल जाए इसलिए सभी जानवरों को बोल कर उसने सियारों को जंगल से निकलवा दिया।

● एक दिन रँगा सियार जंगल में सभी जानवरों के साथ बैठा था। तभी जंगल के सियारों ने हू-हू की आवाज निकालनी शुरू कर दी और हू-हू की आवाज सुनकर रँगा सियार खुद पर काबू नहीं रख पाया और वह भी हू-हू करने लगा। यह देखकर जंगल के सभी जानवर उसे पहचान गए।

● रँगा सियार का भेद खुल चुका था। सभी जानवरों को उसपर बहुत गुस्सा आया और सबने मिलकर रँगा सियार का काम तमाम कर दिया। धीरे-धीरे सियार जंगल में वापस आ गए और सब खुशी से रहने लगे।

Q1. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए:-

(a) इच्छा-

- (b) तलाश-
- (c) स्वयं-
- (d) विश्वास-
- (e) चैन-
- (f) उपाय-

Q2. एक शब्द में उत्तर दें:-

- (a) रँगा सियार किस पर बढ गया था?
- (b) गँडे को उसने क्या बनाया?
- (c) रँगा सियार ने किसे जंगल से निकलवा दिया था?
- (d) सियार गाँव में कब पहुँचा?
- (e) सियार किसके घर में घुस गया था?
- (f) रँगा सियार ने सभी जानवरों को अपना नाम क्या बताया?

Q3. लघु उत्तर लिखें:-

- (a) सियार गाँव क्यों गया?
- (b) रँगे सियार ने टीले पर चढ़कर अन्य जानवरों से क्या कहा?
- (c) रँगा सियार ने चीते को क्या काम सौंपा?
- (d) रँगा सियार ने अन्य सियारों को जंगल से क्यों निकलवा दिया?

EXERCISES FROM THE BACK OF THE LESSON (Do ALL IN THE TEXTBOOK)

PAGE NO.25.

सही अथवा गलत का चिन्ह लगाएँ:-

PAGE NO.25:-

भाषा मंथन:-

Q1. उदाहरण के अनुसार दो- दो शब्द और लिखें:-

Q2. दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर लिखें:-

Q3. 'श' और 'स' के उच्चारण में अंतर को समझें और सही शब्द के आगे लगाएँ:-

PAGE NO. 26

Q4. सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करें:-

PAGE NO.26.

कुछ करने के लिए:-

